its business growth in the first half of 2020.

Unilever, which on Thursday announced results for the first half of 2020, reported a turnover of €25.7 billion for the January-June period, which was down 1.6% from the corresponding period of 2019.

It said that lockdowns during the first half varied in severity, with some having a more significant impact on the supply and availability of goods, particularly those in India and China.

It said spread of Covid-19 combined with the lockdowns and restrictions that have been implemented in many countries led to significant changes in the operating environment. -PTI

0

a 1

S

1.

0

k

0

1

t

n

पंजाब नैश्वनल बैंक

Website: www.newtimeinfra.in NOTICE OF BOARD MEETING Notice is hereby given that pursuant to the Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the company scheduled to be held on Thursday, the 30" day of July, 2020, inter alia, to consider, approve and take on record the Audited Standalone & Consolidated Financial Results for the quarter & year ended March 31, 2020. The said Notice may be accessed on the Company's website at https://www.newtimeinfra.in/ and the website of BSE http://www.bseindia.com/ For Newtime Infrastructure Limited Ashish Pandit Date: 23.07.2020 (Director)



A

punjab national bank

GAD Section, CO: New Delhi, 4th Floor, Rajendra Bhawan, Rajendra Place, New Delhi-110008 NOTICE TO GENERAL PUBLIC

0

Due to unavoidable circumstances and operational conveniences, it has been decided to merge our Branch Office: L-Block, New Delhi with BO: MCB. New Delhi on 31.08.2020. All customers of the branch L-Block, New Delhi are hereby informed that all bank dealings thereafter will be conducted from BO: MCB, New Delhi as usual. Inconvenience caused on account of this is regretted. For any assistance/enquiry, you are requested to contact Sh. Pritpal Singh, Branch

Head, L-Block, New Delhi on Mob:9818513997 & Landline:011-23329619. Chief Manager-GAD

RELAXO FOOTWEARS LIMITED Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No.-10, Manglam Place, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi-110085 CIN No:- L74899DL 964PLC019097, Ph: 011-46800600, Fax: 011-46800692

RELAXO E-mail: rfl@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootwear.com

NOTICE Notice is hereby given pursuant to applicable Regulation(s) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that meeting of Board of Directors of Relaxo Footwears Limited is scheduled to be held on Saturday, 1" day of Abgust, 2020 at 12:00 noon inter-alia to consider, review, approve and take on record Un-Audited Pinancial Results for the quarter ended on 30th June, 2020.

The information contained in this notice is available on the Stock Exchange websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.relaxofootwear.com. By order of the Board on Directors

For Relaxo Footwears Limited

Place: Delhi Date: 23.07.2020

Vikas Kumar Tak Company Secretary

Sd/

10

Jabalpur

22-07-2020



Addl. GM & Company Secretary Membership No. A7762

Place : Noida 23" July, 2020 Date

	Total Income from Operations .	4,010.21	21.0						
1	Net Profit / (Loss) for the period (beforeTax, Exceptional and / or	(57.49)	(477.17)	(300.97)	(910.87)	(1,986.09)			
3	Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or	(57 49)	(477.17)	10,552.50	(255.75)	8867.38			
-	Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after	184.29	(477.17)	10,552.50	(13.97)	8867.38			
4	tax(after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the		(177.47)	10,547.31	(41.34)	8866.18			
5	period [Comprising Profit / (Loss) for the period(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	157.82	(477.47)	8,948.27	8,948.27	8,948.27			
1	Equity Share Capital	8,948.27	8.948.27	0,540.21					
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	595.93	637.27			
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued					14.47			
	operations) -	0.21	(0.53)	12.96	(0.02)	14.42			
	1. Basic:	0.21	(0.53)	12.96	(0.02)	14.42			
	2. Diluted:		- Annual Annua			ded 21 Mar			
1	Divided. Ites: The above Statement of Audited Financial Results ("the statement") for the quarter and year ended 31 Mar 2020, were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 2020, were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 2020. The statutory auditors of the Company have carried audit of the above statement for the quarter a July 2020. The statutory auditors of the Company have carried audit of the above statement for the quarter a July 2020. The statutory auditors of the Company have carried audit of the above statement for the quarter a July 2020. The statutory auditors of the Company have carried audit of the same have been filed with BSE year ended 31 March 2020 and an unmodified opinion has been issued. The same have been filed with BSE and National Stock Exchange of India Ltd. and is also available on the Company's website at www.cebbco.c and National Stock Exchange of India Ltd. and is also available on the Resolution Plan for restructuring During the previous year, the lenders of the Company have completed the Resolution Plan for restructuring amount of loan a load of the principal amount of load of load of load of the principal amount of load of load of load of load of load of the principal amount of load								
3	assets held for the same. The Company has identified certain assets held for sale at their estimated net realisa 1,700.83 Lakhs as at 31 March 2019 and included them under 'Assets held for sale' at their estimated net realisa value. The loss of Rs. 1,603.98 Lakhs being difference between WDV and estimated realizable value has b excerded under the head'Excentional Items' in the previous year.								
4	During the quarter ended 30 June 2019, the Company had forfeited 0.0001% Non-Convertible Culture Redeemable Preference Shares due to non payment of unpaid calls. These preference shares were issue erstwhile promoters in the year 2014-15 amounting to Rs. 2,000 lakhs of which only Rs. 1,300 lakhs was pair Out of the paid up amount, Rs.655.12 lakhs was classified as liability component of compound fina instruments as under the requirement of Ind AS 109. Pursuant to the forfeiture, the Company had recogniz gain of Rs. 655.12 lakhs as 'Exceptional Items' in the financials results of the quarter ended 30 June 2019 ar the year ended 31 March 2020.								
	5 The Company is mainly engaged in the business of metai fabrication comprising load bodies for convehicles and rail freight wagons. These, in the context of Ind - AS 108 is considered to constitute or reportable segment. Accordingly, disclosures under Ind AS 108, Operating Segments are not required to be a sequence of the context								
	6 On 1 April 2019, the Company has adopted Ind AS 116 "Leases", using the modified retrospective appil Accordingly, the comparatives have not been retrospectively adjusted. The adoption of Ind AS 116 did not have material impact on the financial results of the Company.								
	In March 2020, the World Health Organisation declared the COVID-19 to be a pandemic. Consequent to Government of India declared a nationwide lockdown on 25 March 2020, which has impacted the bulk activities of the Company. The Company has assessed the impact that may result from this pandemic liquidity position, carrying amount of receivables, inventories, tangible and intangible assets and other a liabilities. In developing the assumptions relating to the possible future uncertainties in the global ecc condition because of this pandemic, the Company has considered internal and external information avail the date of approval of these financial results and has assessed its situation. In that context and based on the current estimates the Company believes that COVID-19 is not unlikely to him material impact on financial results, liquidity or ability to service its debt or other obligations. However the economic environment, being uncertain due to COVID-19, may affect the underlying assumptions and es in future, which may differ from those considered as at the date of approval of these financial results. The Company is not uncertain due to conditions and consider their impact on france from those considered as at the date of approval of these financial results. The Company is not uncertain due to conditions and consider their impact on france from those considered as at the date of approval of these financial results. The Company is not uncertain due to conditions and consider their impact on free financial results.								
	B The figures of the last quarter are the balancing figures between the audited figures in respect of full year unaudited published figures up to the third quarter ended 31 December of respective year.								

bushed figures up to the third quarter ended 31 December of respective year. Previous period figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with curre 9 classification / disclosures.

The results are also available on the website of the company on www.cebbco.com

For and on Behalf of the sd/-Abhishek Jaiswal

Whole Time Director & DIN-07936627

		जनसत्ता, 24 जुलाई, 2020 9	रोलाटनसे लिमिटंड गोआईएन 1,2101411R 1968PL C004844	न्यूटाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर CIN: L24239HR1984PLC
सूरज इण्डस्ट्रीज लि.	Order of the order	कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड	पंत्रीकृत कार्यालयः प्लॉर सः ३-७a फेज ∏ि	पंजी. कार्या.: लोटस ग्रीन सिटी, एव 24, भिवाड़ी अलवर बाईपा
CIN: L26943HP1992PLC016791	त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड	🔹 होल्डिंग्स लिमिटेड 💷	१०४स्ट्रियन पुरिया, चारुहेदा जिला रिवार) हरियाणा १२३१०६	रोड, धारुहेड्रा, रिवाडी 123401
र्ध-मेल- secretarial@surajindustries.org येवसाइट-www.surajindustries.org	पंजीकृत कार्यालय : एन-44 हौचरी कॉम्प्लेक्स, फ्रेज-1। एक्सटेंशन, गौतम बुद्ध नगर, नौएडा, उत्तर प्रदेश-201305 कॉर्पोरेट कार्यालय : 8वीं मंजिल, एक्सप्रेस ट्रेड टॉवर्स 15-16, सेक्टर 18 ए, नौएडा, उत्तर प्रदेश-201301	गंजी, कार्यालय : 19यां के.एम., हापुड़-बुलंदशहर रोड,	griain = 01:74 = 243326 = 242220	Ph:+91-741988507
पंजी. कार्याः प्लॉट नं. २. फेज़ ३. संसारपुर हेरेस. जिला. कांगजा, हिमाचल प्रवेश—173212	का पा रट का पालय - वया नाजल, एक्सप्रेस टूड टायस १०१०, सकटर १७ ए, नाएडा, एसर प्रदरा-201301 बुरमाय : 91 120 4308000 / फैक्स : 91 120 4311010-11	पी.जो. मुलावठी, जिला - बुलंदशहर 203408 (उत्तर प्रदेश) सीआई एन : L33200UP1993PLC015474	इ. मेला es rollatainersa gmail.com	E-mail: newtimeinfra2010@
कॉरपोरेट कार्यालयः एफ-32/3, प्रथम तल, ओखला,	북 귀려 shares. ttl@trivenigroup.com Website : www.triveniturbines.com	ई—मेल : cs_cfhl@jindalgroup.com	वयसाइन www.rollatainers.com	Website: www.newtime
इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-2 , नई दिल्ली-110020 संपर्क सुन्नः 01970-256414	कम्पनी पहचान संख्या : L29110UP1995FLC041834	वेबसाइट : www.consofinvest.com फोन : 011-26139256, 40322100	men la ante se	बोर्ड की बैठक की
सुचना	अंशव्यारकों हेतु सूचना समता अंशों का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निश्चि में हस्तांतरण	भाष : 011-20139230, 40322100 संचना	बोर्ड बैठक की सूचना	एतद्द्वारा सूचित किया जाता
रतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि सेवी	एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6) के प्रावधानों के साथ	सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ)	सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन	(सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन)
सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा)	पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदेय) नियम,	विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में सूचना में एतवृद्धारा सूचना	अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47 के	2015 के विनियमन 47 के
वनियम, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित	2018, यथा संशोधित, (आईइपीएफ नियम), के अनुपालन में ऐसे सभी अंश जिनके सम्बन्ध में सात या उससे अधिक वर्षों से लागांश का दावा अथवा भुगतान नहीं किया गया है, कम्पनी द्वारा विनिधानकर्ता	वी जाती है कि कसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होत्डिंग्स	साथ पठित विनियम 29 के अनुसार, एतद्वारा	विनियमन 29 के अनुपालन में
वनियम 33 और 47 के अनुपालन में मैससं	शिक्षा और संरक्षण निधि (आईइपीएफ) के पक्ष में हस्तांतरण हेतु याँछित हैं।	लिमिटेड के निदेशक मंडल की एक बैठक कम्पनी के	सूचना दी जाती है कि 31 मार्च, 2020 को	निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार
रूरज इण्डस्ट्रीज लि. के निदेशक मण्डल की	आईइपीएफ नियमों के अनुपालन में, कंपनी ने सम्बंधित अंशघारकों को, जिनके वित्तिय वर्ष 2012–13	प्रधान कार्यालय में बुचवार, 29 जुलाई, 2020 को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य विषयों के साथ, 31	समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए अन्य बातों के	2020 को आयोजित की जायेगी
ठक बुधवार, 29 जुलाई, 2020 को साय	के अंतिम लामांश का दावा नहीं किया/अदत्त हैं तथा जिनके अंश आईइपीएफ को हस्तांतरित किये	मार्च 2020 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु कम्पनी के	साथ-साथ कम्पनी के लेखापरीक्षित स्टेण्ड	विषयों के अलावे 31 मार्च, 2020
4.00 बजे एफ-32/3, प्रथम तल, ओखला	जाने हैं, आवश्यक सूचना प्रेषित की है। कथित अंशवारकों का विवरण कंपनी की वेबसाइट	लेखापशिक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन	अलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों पर	तिमाही एवं वर्ष के लिये अंकेक्षित
रीद्योगिक क्षेत्र, फेज-॥, नई दिल्ली	www.triveniturbines.com पर 'Investors' Web. Link: https://www.triveniturbines.com/transfer- shares-iepf.html. अनुमाग के अंतर्गत अपलोड किया गया है। अंशचारक आईइपीएफ को हस्तारित होने	किया जाएगा। उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट	विचार, अनुमोदन एवं रिकार्ड के लिए कम्पनी	एवं समेकित वित्तीय परिणामों
110020 में आयोजित की जाएगी जिसमें 31 ार्च, 2020 को कम्पनी के समाप्त वर्ष के	हेतु संमाव्य अंशों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर देख सकते हैं।	www.consofinvest.com तथा स्टाक एक्सचेन्जेज	के निदेशक मण्डल की बैठक शुक्रवार, 31	
ाय, 2020 का कम्पना क समाप्त वर्ष का किक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा	सम्बंधित अंशघारकों से अनुरोध है कि वर्ष 2012–13 के अंतिम एवं उसके उपरान्त के अपने	की वेबसाइट नामतः www.nseindia.com पर भी	जुलाई, 2020 को आयोजित की जायेगी।	अनुमोदन कर उसे अभिलेख में
नुमोदन किया जायेगा। अधिक जानकारी के	अवत्त लामांश का दावा करने हेतु अपना आवेदन कम्पनी या इसके शेयर ट्रांसफर एजेंट	उपलब्ध हैं।	कथित सूचना कम्पनी की वैबसाइट	उक्त सूचना कम्पनी की
तुप कृपया हमारी कम्पनी की वेबसाइट	अर्थात अलंकित असाइनमैन्टस लिमिटेड (यूनिट त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड) को अलंकित हाउस, 4ई/2 झन्डेवालान एक्सटैनशन, नई दिल्ली–110055 अथवा ईमेल द्वारा	वास्ते कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स लि. दिनांक : 23.07.2020 हस्ता. /-	www.rollatainers.in तथा बीएसई की	https://www.newtimeinfi
भारत www.surajindustries.org अथवा	हाउस, ४३/२ अन्डवालान एक्सटनशन, नइ दिल्ला–110055 अथवा इमल द्वारा Ita@alankit.com पर कर सकते हैं। यदि अदत्त लामांश का वैद्य दावा 29 अगस्त, 2020 को	दिनाकः 23.07.2020 हस्ता./	वेबसाइट www.bseindia.com पर देखी	बीएसई की
टॉक एक्सचेंज वेबसाइट अर्थात	या उससे पूर्व प्राप्त नहीं होता है तो कंपनी आईईपीएफ नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया		जा सकती है।	http://www.bseindia.com
ww.bseindia.com में संपर्क कीजिए।	के अनुसार कानूनी प्रावधानों का पालन करने की दृष्टि से कथित अंशो को आईईपीएफ में	रिट्ज मर्केन्टाइल लि.	कृते रोलाटेनर्स लिमिटेड	जा सकती है।
कृते सूरज इण्डस्ट्रीज लि.	हस्तांतरित कर देगी।	यंजी कार्या. 603, सेठी भवन, 7, राजेन्द्रा प्लेस,	₹./-	न्यूटाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटे
हस्ता/-	अंशघारक कृपया घ्यान दें कि आईईपीएफ को हस्तांतरित अंशों को उपार्जित लामों सहित, यदि कोई हो, आईईपीएफ प्राधिकरण से आईईपीएफ नियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के	नई दिल्ली-110008 CIN: L52110DL1985PLC019805	दिनांकः 23.07.2020 पीयूष गुप्ता	34
गुमः नई दिल्ली भानूमति रामचन्द्रण	अनुसार अंशधारको द्वारा वापस प्राप्त किया जा सकता है।	सुचना	स्थान : नई दिल्ली (निदेशक)	तिथि: 23.07.2020
थिः 23.07.2020 कम्पनी सचिव	उपरोक्त मामले पर किसी भी प्रश्न के लिए शेयरघारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे	सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेका)	डीआईएन : 03392865	स्थानः नई दिल्ली DIN:(
	निम्नलिखित में से किसी एक से संपर्क करें: -	विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया		
जनरा वैक-Canara Bank 📣 🛛	Corporate Office of the Company Registrar and Transfer Agent Office Triveni Turbine Limited Alankit Assignments Limited	जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक	अम्यूजर टेक्नोलॉजीज एलएलपी AAP-2773	NATIONAL GENERAL INDUS 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, S
E Melalar Symilests	Triveni Turbine Limited Alankit Assignments Limited (Nodal Officer and Company Secretary) (Unit: Triveni Turbine Ltd.)	षुध्रयार, 29 जुलाई, 2020 को 3.00 बजे अप. में कम्पनी	पंजीवृत कार्यालय : प्रसेट नं. 93, 5/F ॥ सेक्टर-19, केट. पॉकेट । प्राएका, वक्षिण पश्चिम विरसी - 110075	New Friends Colony, New Delt
शाखा	Express Trade Towers, 8th Floor, Alankit House, 4E/2,	के पंत्रीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के अलावे 31 मार्च, 2020 को समाख	सूचना	NOTICE
एलसीबी नोएडा बी-117, 1ला तल, सेक-18,	Plot No. 15-16, Sector 16-A, Jhandewalan Extension,	तिमारी तथा वर्ष के अंकेश्वित वित्तीय परिणामों तथा	(सीमित दायित्व भागीदारी विनियम, 2009 के नियम 17 के प्रावधानों के अनुसरण में)	NOTICE is hereby given that p
नोएंडा-201301, उ.प्र.	NOIDA - 201301 (U.P.) New Delhi - 110055	अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य विषय पर विचार कर	एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अभ्यूजर टेक्नोलॉजीज	clause 29 of the SEBI (LODR), R 2015, a meeting of the Board of
गुद्धिपत्र 8685/एलसीबी/2020-21 तिथि: 23.7.2020	Tel. No. 120-4308000 Tel. No. 011-42541234, 23451234	उसे अभिलेख में लिये जाएंगे। अधिक विवरणों के लिये कृपया 'www.ritzmercan-	एलएलपी (सीमित दायित्व भागीदारी पंजीकरण शंख्या AAP-2773) द्वारा अपना पंजीकृत कार्यालय दिल्ली राज्य	of the Company will be held on
रफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत मै. प्राइम इंडिया के	Email: shares.ttl@trivenigroup.com E-mail: rta@alankit.com	tile.com' या www.cse-india.com,	से राजस्थान राज्य अर्थात पत्नेट ने. 93, S/F III सेक्टर-19, कैट, पॉकेट I, द्वारका, दक्षिण परिषम विस्ती – 110 075 से	31" day of July, 2020 at the
मले में चल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये 23.7,2020 को	कृते त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड हस्तास्पर	www.msei.in देखें।	डी-41, तारा नगर, खिरणी फाटक, झोटवाडा, जयपुर,	Office of the Company, inte
मारे विज्ञापन के संदर्भ में ई-नीलामी की तिथि 20,3,2020 की गह 25,8,2020 पहें।	(राजीव साहनी)	रिट्ज मर्केन्टाइल लि. के लिये हस्ता./-	राजस्थान-302012 पर स्थानांतरित करना प्रस्तावित है । पंजीकृत कार्यालय के उक्त स्थानांतरण हेतु सभी नामित	approve and take on record the financial results for the quarte
प्राधिकृत अधिकारी	रस्थानः नाएडा (उत्तर प्रदेश) कम्पनी सचिव दिनांकः 23 जुलाई 2020 M.No.ACS 8047	स्थानः नई दिल्मी आकांक्षा अगरवाल	भागीवार/ भागीवारों की सहमति प्राप्त कर सी गई है । कोई	ended on 31" March, 2020.
केनरा बैंक (ई-सिडिकेट)		तिथि। 23.7.2020 सीएस एवं अनुपालन अधिकारी	य्यवित जिसके हित पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित रस्यानातरण से प्रभावित होने की संभावना हो, यह इस सूचना	By order of
शार्पलाइन ब्रॉडकॉस्ट लिमिटेंड	JAYPEE		के प्रकाशित हाने की तिथि से 21 दिन के भीतर अपनी आपति कम्पनी पंजीयक, नई दिल्ली को 4th प्रलोर, IFCI टॉवर,	For National General Indu
में अर्थित होल्विंग्स एंड क्रेडिट्स लिपिटेड के वास से विधित्र)		एलायंस इंटीफ्रेटेड मेटलिक्स लिमिटेड	61 नेहल प्लेस, नई दिल्ली - 110019 के परो पर भेजें	Place: New Delhi Vandana
पंजी. कार्यालयः 37, दूसरा तल, रानी हरसाँ रोड मंगीरण सान,	AYPEE	নী প্রায়েও ন ৫৬৭ ও বুঁচা (৭৯৬৪) বি ৬ ৫০০ ব্যাধন চার্যদেও হ'ব, ব্যায় হারনের (১০০	जिसकी एक घति सीमित वायित्व भागीवारी को इसके वर्तमान पंजीकृत कार्यालय प्रलेट नं. 93, S/F III सेक्टर-19,	Date: 22.07.2020 Company !
पहावृगंज, दिल्ली-110055 इंमेल: sharplinebroadcostlimited genail.com	GROUP	Period and the rest of the second sec	बेट, पॉकेट 1, द्वारका, दक्षिण परिषम दिल्ली - 110075 पर भेजी जाए । सकसत त्यान	साधना ब्रॉडकास्ट लि
aunite www.sharplinebuadcast.in	जयपी इन्फ्राटेक लिमिटेड		भेजी जाए । मकसूव रवान स्थान : विन्ती (नामित मागीवार)	(पूर्व में धिगवू ब्रॉडकारट नेटवर्ष्या रिन. के ना
CIN: 1,22100D1.1990P1.C039464, फोन: (011-23552627)	CIN: L45203UP2007PLC033119	4.1 IBS alliance nigdse couldnate cont 99868 www.auto.au	ftrite : 23,07.2020 DPIN: 08450818	पेजी, कार्यालय: 37, वूसरा तल, रानी झॉर्स खान, पहाइगेज, दिल्ली-11005
सूबना	पंजीकृत कार्यालयः सेक्टर-128, नोएडा-201304, उ.प्र.			(\$) cbnl.delhl@ginall.com
(सूचीयन दायित्व ता उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 प्रमन 47 के साथ पठित पिनियमन 29 के अनुपालन में स्वत्या	फोन.: +91-(120)-4609000, फैक्स: +91-(120)-4963122,	बोर्ड बैठक की सूचना	प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए	(डब्ल्यू) www.sadhnabrondcas CIN: L92100DL1994PLC05
किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंहल की एक कैतन	येवसाईटः www.jaypeefratech.com, ईमेल: jpinfratech.investor@jalindia.co.in	सेवी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन	क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी	फोन: 91-11-23552627
1. 28 जुलाई, 2020 को 3 यत्रे अप में कम्पनी के प्रजित्त लग में आयोगित की गायेगी जिसमें अन्य त्रिषयों के साथ 31 मार्च,	सूचना	अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47	क्षेत्र के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम,	सूखना संबी (सूचीपन द्वपिण तथा उद्याटन अपेक्ष) हि
को समाप्त तिमाही तथा यर्ष के अंकेशित यिनीय परिणामें लगा	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन,	के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार,	वर्भयना आधानयम, 2013, कम्पना आधानयम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन)	विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अन्
	2015 के विनियमन 29 एवं 47 के अनुसार सुचित किया जाता है कि 31 मार्च, 2020 को	एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 31 मार्च,	नियमाथली, 2014 के नियम 41 के मामले में	सुचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक में
बोर्ड के आदेश	राज के जिलेक्स 27 रथ के जुसर कुपर विज जिस का विज जाता है कि जा का के राज के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के स		तथा	मुरुवार, 28 जुलाई 20?0 को 12 30 बजे अप. में व कार्यालय में आपोजित की जायेगी जिसमें अन्य वि
शार्पलाइन ब्रॉहकास्ट लिमिटेड के प्रिये	समेकित वित्तीय परिणामों पर मंगलवार, 28 जुलाई, 2020 को विचार एवं अनुमोदित किया	2020 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए	मै. किरतपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 103, 1ला तल, ब्लॉक-1,	मार्ग 2020 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के डोके
हस्ता. /- (जालू गर्ग)	तमाकते जित्ताय परिणामा पर मगलवार, 28 जुलाइ, 2020 का विचार एव अनुमादित किया जायेगा।	अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी के	बल्यूएचएस, कीर्तिनगर ईष्ठस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-	त्रभा आवश्यक समझ जाने चाले किसी अन्य विषय अभिलेख में लिये जाएंगे।
त नई दिल्ली कम्पनी संविध	जायना। पुनः ये विवरण कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.jaypeeinfratech.com तथा साथ	लेखापरीक्षित स्टैण्डअलोन वित्तीय परिणामों	110015 में है (आवेदक) के मामले में	वोई
	पुनः व विवरण कम्मना का वर्षसाइट अयात् www.jaypeeintratecn.com तथा साथ हीं स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.nseindia.com तथा www.bseindia.com	पर विचार, अनुमोदन तथा रिकार्ड पर लेने	एतद्द्वारा आम जनता को सुपित किया जाता है कि यह	साधना झॉडकास्ट लि
प्रसंद में -02, सेपटर-3, एमएसएएसटी, प्रारका-110078	हा स्टाक एक्सचज को वबसाइट www.iiseindia.com तथा www.bscindia.com पर देखी जा सकती है।		जन्मनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार	स्वानः नई दिल्ली
loha Oakey and Michael Luter		के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की	के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे	स्वानः नई दिल्ली तिथिः 22.7.2020 DIN
John Oakey and Mohan Limited CIN : L15549DL1962PDC003726,	जयपी इन्फ्राटेक लिमिटेड के लिये	बैठक बृहस्पतिवार, 30 जुलाई, 2020 को	रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम	24/27, फ्रान्ट साइंड, वे
CIN : L15549DL1962PDC003726, Regd office: Office No 4 HCCSC, Pocket E Market Manue Vilia: Chase 2	एस.के. माटा	आयोजित की जायेगी।	बनाने के लिए मंगलवार, 2 जून, 2020 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार	
Delhi 110091	स्थानः नोएडा अतिरिक्त महाप्रबन्धक एवं कम्पनी सचिव	कथित सूचना कम्पनी की वेबसाइट	असाधारण आमसभा में पारत विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित	
Email: oakeymohan@gmail.com. Contact@oakeymohan.com	तिथिः 23 जुलाई, 2020 सदस्य सं. ए 7762	https://www.aiml.in तथा बीएसइं	करने के लिए इच्छुक है।	सेमाया लिमित
Website: www.oakeymohan.com			कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि	(पूर्व में सनसइज एग्रो प्रॉडक्ट्स रि CIN: L01111DL1985PLC0
Tel.: 0120-2657298; Fax: 120-2659155	मिंडा इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड	की वेबसाइट http://www.bsein-	किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे	पंजी. कार्यालय: 211, अंतरिक्ष भवन,
NOTICE lice is hereby given that pursuant to the	पंजीकृत कार्यालयः बी84/1, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, विल्ली-110082	dia com पर देखी जा सकती है।	वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन को	मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-1
visions of Regulation 29 and 47 of SEBI	ATE aristal: arustagl@mindagroup.com CIN No.: U74899DL1994PLC063761	कृते एलायंस इंटीग्रेटेड मेटलिक्स लिमिटेड	तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित को प्रकृति तथा	t-मेलः semayallmited@gma फोनः 011-42487936
ting Obligations and Disclosure Requirements)	णोंमें स0. आईएनसी-28 [कंपनी (तिगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]	₹./-	आपति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र	सूचना '
guiations 2015, that a meeting of the Board of actors of the Company will be held on	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य परिवर्तन करने के लिए समाचार	स्थान : नई दिल्ली दलजीत सिंह चहल	हारा समर्थित अपनी आपति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र,	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीय
	पत्र में प्रकाशित होने वाला विवायन	तिथि : 23.07.2020 पूर्णकालिक निदेशक	बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ	उद्धाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियम
ursday the13th August 2020 at 2pm at Mohan		1114 . 23.07.2020 Jordinetian Provide	कॉम्प्लिक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा	पठित विनियमन १० के अन्यालन में गुन्नजा
ursday the 13th August 2020 at 2pm at Mohan gar Ghaziabad, UP, inter-alia to consider, prove and take on record the unaudited	केन्द्रीय सरकार के समझ, उत्तरी क्षेत्र, क्षेत्रीय निर्देशक कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4), और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(6)(ए) के मामलें में	एमजीएम रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड	कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।	पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्दा जाता है कि मै. सेमाया लिमिटेड (पूर्व में: प्रॉडक्ट्स लिमिटेड) के निदेशक मंडल की एक

